



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 मई, 2025  
बैशाख 19, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 170/81-2-2025  
लखनऊ, 9 मई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-81

उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1972) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल वर्ष 2025 के लिये विन्ध्यांचल मण्डल, मीरजापुर, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, झांसी मण्डल, झांसी, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज एवं चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा में विक्रय के लिये प्रस्तुत तेन्दू पत्तों के राज्य सरकार के द्वारा या उसकी ओर से उक्त वर्ष के लिये क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देने के निमित्त अपने-अपने मण्डलों के लिये परामर्श देने हेतु समितियां, जो नीचे अनुसूची में दी गयी हैं, संगठित करते हैं और उक्त अनुसूची में स्तम्भ-3 में उल्लिखित पदधारक/व्यक्तियों को उक्त समितियों का अध्यक्ष, संयोजक तथा सदस्य नाम निर्दिष्ट करती हैं।

2-उक्त समितियां राज्य सरकार के वन या गाँव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की भूमि से संग्रहीत तेन्दू पत्ता पर देय संग्रहण व्यय दर तथा निजी उत्पादकों के मामलों में क्रय दर के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

3-यह समितियां अविलम्ब अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देंगी।

क्र०सं०	मण्डल का नाम	परामर्शदात्री समितियों के अध्यक्ष, संयोजक एवं सदस्य का नाम
1	2	3
	<b>विन्ध्यांचल मण्डल, मीरजापुर</b>	
1	आयुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल, मीरजापुर।	अध्यक्ष
2	मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।	संयोजक
3	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, प्रयागराज।	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग।	सदस्य
5	प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग।	सदस्य
6	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग।	सदस्य
7	प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग।	सदस्य
8	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।	सदस्य
	<b>वाराणसी मण्डल, वाराणसी</b>	
1	आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।	अध्यक्ष
2	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर।	सदस्य
3	वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।	संयोजक
4	क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, उ०प्र० वन निगम, प्रयागराज।	सदस्य
5	प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग।	सदस्य
6	प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी।	सदस्य
7	तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा)	सदस्य
	<b>झाँसी मण्डल, झाँसी</b>	
1	आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।	अध्यक्ष
2	वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी।	संयोजक
3	उत्तर प्रदेश वन निगम का प्रतिनिधि जिसे नामित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वन निगम को होगा।	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर।	सदस्य
5	प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी।	सदस्य
6	तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा)	सदस्य
	<b>प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज</b>	
1	आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।	अध्यक्ष
2	वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।	संयोजक
3	उत्तर प्रदेश वन निगम का प्रतिनिधि जिसे नामित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वन निगम को होगा।	सदस्य
4	प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, प्रयागराज।	सदस्य
5	तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा)	सदस्य

1	2	3
	<b>चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा</b>	
1	आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।	अध्यक्ष
2	वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।	संयोजक
3	उत्तर प्रदेश वन निगम का प्रतिनिधि, जिसे नामित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वन निगम को होगा।	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा।	सदस्य
5	प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।	सदस्य
6	प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।	सदस्य
7	प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट/उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व, कर्वी-चित्रकूट।	सदस्य
8	तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दू पत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसायों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा)	सदस्य

श्री राज्यपाल के आदेश से,  
अनिल कुमार,  
प्रमुख सचिव।